

उदयपुर में सप्लाई हो रही थी डेढ़ करोड़ की ड्रग्स:4 पिस्टल समेत 20 हजार के नकली नोट भी मिले



MP से उदयपुर में करीब डेढ़ करोड़ रुपए की ड्रग्स रविवार को सप्लाई होनी थी। इसके साथ ही नकली नोट और पिस्टल भी थे। लेकिन, इससे पहले प्रताप नगर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ की तो इसका खुलासा हुआ। युवक से 2 पिस्टल व रिवॉल्वर समेत 330 ग्राम ड्रग्स बरामद की है। इसके साथ 20 हजार के नकली नोट भी मिले हैं। यह कार्रवाई प्रतान नगर पुलिस ने रविवार दोपहर 12:30 बजे ठोकर चौराहे पर की। आरोपी दीपक पाटीदार (32) पुत्र नाथूलाल प्रतापगढ़ जिले के थमोतर, कुलमीपुरा गांव का रहने वाला है। एसपी चन्द्रशील ठाकुर ने बताया कि एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर मादक पदार्थ की रोकथाम और अवैध हथियारों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रतापनगर पुलिस ने ठोकर चौराहे से एक युवक को संदिग्ध लगने पर पकड़ा। यह युवक किसी को हथियार और ड्रग्स सप्लाई करने आया था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एसपी चन्द्रशील ठाकुर ने बताया कि आरोपी को एक स्कॉर्पियो कार से आरोपी को पकड़ा। जिसमें 2 पिस्टल-2 रिवॉल्वर, 70 राउंड और 330 ग्राम ड्रग्स भी रखी हुई थी। आरोपी के पास एक थैली थी, जिसमें 20 हजार के नकली नोट भी मिले। ये सभी नोट 200-200 के थे। आरोपी से पूछताछ जारी है। ड्रग्स की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रूपए हैं। दीपक उदयपुर में हथियार और एमडी नशा सप्लाई करने काम लंबे समय से कर रहा था। दीपक के पकड़े जाने के बाद नशे और हथियार सप्लाई करने वाली एक चेन को भी पकड़े जाने संभावना है। आरोपी का उदयपुर के सेवाश्रम की ठक्कर बप्पा कॉलोनी में ससुराल है। आरोपी विवाहित है और उसका एक 8 माह का एक बेटा है।

50 छोटे सप्लायर पुलिस के रडार पर

जानकारी मिली है कि 50 से ज्यादा संदिग्ध पहले से चिन्हित है जो उदयपुर में छोटे लेवल पर गली, नुक्कड़ पर ड्रग सप्लाय करते हैं। पकड़े गए आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में भी उनके नाम सामने आए हैं। इस बारे में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। कि आरोपी इसके अलावा भी किसको हथियार सप्लाय करने वाला था और किससे माल खरीदता है।

सामने आया है कि आरोपी प्रतापगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। वो जिस इलाके से यह आता है, वहां ड्रग असानी से मिल सकती है। थमोतर एमपी बॉर्डर के भी पास है। यहां से अवैध हथियार भी मिल जाते हैं। बता दें कि उदयपुर पुलिस शहर को नशा मुक्त करने के लिए होटलो पर लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। उदयपुर को नशा मुक्त करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/udaipur/news/drugs-worth-15-crores-4-pistols-70-rounds-and-fake-notes-of-20-thousand-were-also-found-already-caught-in-arms-act-130243007.html>